



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2771]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938

No. 2771]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

का.आ.3540(अ).-- केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के पश्चात्, यह राय होने पर कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	प्रकार (2)	किस्म (3)	राज्य (4)
1.	चावल	एचकेआर 48 (एचकेआर 99-60)	हरियाणा
2.	चावल	गुजरात आनंद राईस-3 (जीएआर-3)	गुजरात
3.	चावल	चिसुराह नोना-1 (आईटी 23403) (गोसाबा-5) (आईआर551793बी-11-3)	पश्चिमी बंगाल
4.	चावल	पंजाब बासमती 3	पंजाब
5.	चावल	जीएनआर-4	गुजरात
6.	चावल	स्वर्ना श्रेया	छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
7.	चावल	टीएम 07278	बिहार और ओडिशा
8.	चावल	पूसा बासमती 1637	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश
9.	चावल	पूसा बासमती 1728	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।
10.	चावल	पीएसी 8744	छत्तीसगढ़

11.	चावल	बीएस 158 (एराइस स्विफ्ट)	मध्य प्रदेश
12.	चावल	छत्तीसगढ़ मधुराज धान-55	छत्तीसगढ़
13.	चावल	एमटीयू 1121 (श्री धृथी)	आंध्र प्रदेश
14.	चावल	जेआर 767	मध्य प्रदेश
15.	चावल	राइस सीआर 1009 सब 1	तमिलनाडु
16.	चावल	टीकेएम 13	तमिलनाडु
17.	चावल	बीएल 7620	उत्तराखंड
18.	चावल	केपीआर-1 (आई ई टी-23077)	कर्नाटक
19.	चावल संकर	एनके 16520	छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना
20.	चावल संकर	जेकेआरएच 3333	पश्चिमी बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश
21.	धान संकर	केपीएच 467	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र
22.	धान संकर	केपीएच 272	तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु
23.	धान	बौना कालानमक-101	उत्तर प्रदेश
24.	गेहूँ	डीएच 114 (हिम प्रथम)	हिमाचल प्रदेश
25.	गेहूँ (ट्राईटीकम एस्टीवम)	बीएल 953 (बीएल गेहूँ 953)	उत्तराखंड
26.	गेहूँ (ट्राईटीकम एस्टीवम)	यूपी 2784	उत्तराखंड
27.	रोटी गेहूँ (ट्राईटीकम एस्टीवम)	पीबीडब्ल्यू 660	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
28.	रोटी गेहूँ (ट्राईटीकम एस्टीवम)	पीबीडब्ल्यू 677	पंजाब
29.	रोटी गेहूँ (ट्राईटीकम एस्टीवम)	पीबीडब्ल्यू 725	पंजाब
30.	रोटी गेहूँ (ट्राईटीकम एस्टीवम)	पी डी के वी सरदार (एके ए डब्ल्यू -4210 - 6)	महाराष्ट्र
31.	मक्का	गुजरात आनंद यलो मेज हाइब्रिड - 1 (जीएवाईएमएच-1) (1 एच-0461/जीवाईएच-0461)	गुजरात
32.	मक्का	हाइब्रिड एच टी एम एच 5106	तेलंगाना
33.	मक्का	आर जे-2020	गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
34.	मक्का	आर एम एच-4620 (पी आर ओ-385)	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु
35.	मक्का	सैंट्रल मैज वी एल स्वीट्कार्न 1 (एफ एस सी एच 18)	जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नार्थ ईस्टर्न हिल्स, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
36.	मक्का	एस एच आइ ए टी एस मक्का-3 (एस एच आइ ए टी एस मक्का-3) (आई वी टी डी एम आर 117)	उत्तर प्रदेश
37.	मक्का संकर	पी एम एच 10	पंजाब
38.	चारा	जीजे-42 (एस आर - 666-1)	गुजरात
39.	चारा	एस पी एच 1641	महाराष्ट्र

40.	चारा	राज विजय ज्वार 1862 (आर बी जे 1862)	मध्य प्रदेश
41.	चारा	आर बी आई सी एस एच 28	मध्य प्रदेश
42.	जौ	बी एल बी 94	उत्तराखंड
43.	जौ	आर डी 2849	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान (कोटा और उदयपुर प्रभाग के आलावा), पश्चिमी उत्तर प्रदेश (झांसी प्रभाग के आलावा), जम्मू-कश्मीर का जम्मू और कठुआ जिला, पौंटा घाटी और हिमाचल प्रदेश का ऊना जिला और उत्तराखंड का तराई क्षेत्र
44.	तिल	गुजरात जूनागढ़ तिल-5 (जी जे टी 5)	गुजरात
45.	तिल	एल टी 8 (पंजाब तिल न.2)	पंजाब
46.	अरहर	उज्वला (पी आर जी 176)	तेलंगाना
47.	अरहर	मन्नेमकोंडा कांडी (आई सी पी एच 2740)	तेलंगाना
48.	काला चना	एल बी जी 787 (तुल्सी)	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और अंदमान और निकोबार
49.	चने की दाल	फुले सकास (एस एच जी 0628-4)	महाराष्ट्र
50.	उरद बीन (उड़द)	पी डी के बी काला सोना (ए के यू 10-1)	महाराष्ट्र
51.	मूँग बीन (मूँग)	जी बी एम-1	गुजरात
52.	मूँग बीन (मूँग)	आई पी एम 410-3 (शिखा)	राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और गुजरात
53.	मूँग बीन (मूँग)	आई पी एम 205-7 (विराट)	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात
54.	मूँग बीन (मूँग)	एस एम एल - 1115	त्रिपुरा, मणिपुर और मिज़ोरम
55.	मूँग बीन (मूँग)	एम एस जे 118 (केशवनंद मूँग 2)	राजस्थान
56.	मूँग बीन (मूँग)	एम एल 2056	पंजाब
57.	मूँग बीन (मूँग)	आर एम जी 975 (केशवनंद मूँग 1)	राजस्थान
58.	लोबिया	एम एफ सी-09-1	कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी
59.	अरहर	जी टी-102	गुजरात
60.	अरहर	बी आर जी 5	कर्नाटक
61.	काबुली चना	बी डी एन जी के 798	महाराष्ट्र
62.	काबुली चना	गुजरात जूनागढ़ ग्राम6 (जी एल जी 6)	गुजरात
63.	काबुली चना	जे जी 36 (जवाहर ग्राम 36)	मध्य प्रदेश
64.	काबुली चना	जी बी एम 2	कर्नाटक
65.	कपास	जी. कौट.20 (जी एस एच बी 97/59)	गुजरात
66.	कपास	जी एन. कौट.25	गुजरात
67.	कपास	डी एच बी 915	कर्नाटक
68.	कपास	जी एन. कौट.22	गुजरात
69.	कपास	एस बी पी आर 5 (टी एस एच-0250)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु
70.	कपास	काटन हाईब्रिड एस बी पी आर-1 (टी एस एच एच-0629)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु
71.	कपास	जे एल ए-505	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात
72.	कपास (गौसीपियम ह्विस्टम)	रायचूर शक्ति- 455 (आर ए एच एच - 455)	कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश
73.	अमेरिकन कपास	एफ 2228	पंजाब
74.	अमेरिकन कपास	एफ 2383	पंजाब
75.	रागी	जी एन एन-6	गुजरात
76.	रागी	जी एन-5	गुजरात

77.	रागी	बी एल मंडुआ 348	उत्तराखंड
78.	बाजरा	जी बी-2	गुजरात
79.	बाजरा	फूले एकादशी (के ओ पी एल एम 83)	महाराष्ट्र
80.	बाजरा	जवाहर कुटकी 4 (जे के 4)	मध्य प्रदेश
81.	रागी	एम पी 535 (पूसा कम्पोजिट 701)	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली
82.	रागी	के बी एच 3940 (एम एच 1984)	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली
83.	रागी	नंदी-75 (एम एस एच 287) (एन एम एच 82)	राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
84.	रागी	जे के बी एच 1008 (एम एच 1828)	राजस्थान, गुजरात और हरियाणा
85.	रागी	86एम13 (एम एस एच 276)	राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु
86.	रागी संकर	एम एच 1928 (एक्स एम टी 1497)	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
87.	रागी संकर	86एम82 (एम एच 1888)	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और नई दिल्ली
88.	रागी संकर	जे के बी एच 1100 (एम एच 1810)	उत्तर प्रदेश
89.	रागी संकर	जे के बी एच 1105 (एम एस एच 254)	उत्तर प्रदेश
90.	रागी संकर	बी आई ओ 8145 (एम एच 1970)	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली
91.	सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	आर एल सी 2 (आई सी 511615)	पंजाब
92.	सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	पी बी आर 378	पंजाब
93.	सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	जे के सन्निधि गोल्ड (जे के एम एस-2)	उत्तर प्रदेश
94.	सरसों (ब्रासिका कैमपैस्ट्रिस)	जे के पुखराज (जे के वाई एस-2)	उत्तर प्रदेश
95.	भारतीय सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	राज विजय सरसों 1	मध्य प्रदेश
96.	भारतीय सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	गुजरात दांतिवाडा सरसों-5 (जी डी एम 5) (एस के एम 518)	पंजाब, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान और दिल्ली
97.	भारतीय सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	बेयर सरसों 5450	उत्तर प्रदेश
98.	भारतीय सरसों (ब्रासिका जुंसिआ)	आर एल सी 3	पंजाब
99.	तोरिया (ब्रासिका रापा)	टी एल 17	पंजाब
100.	अफ्रीकन सरसों (ब्रासिका कारिनाटा)	बी जे सी 1 (पी सी 6)	पंजाब
101.	मूंगफली	सैंट्रल ग्राउंडनट राज मूंगफली 3 (आर जी 559-3)	राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब
102.	मूंगफली	फूले वरना (के डी जी 128)	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु
103.	मूंगफली	फूले मोरना (के डी जी 123)	गुजरात और राजस्थान
104.	मूंगफली	के सी जी 6	कर्नाटक
105.	मूंगफली	जी के वी के 5	कर्नाटक
106.	सूरजमुखी	फूले भास्कर (एस एस -0808)	महाराष्ट्र

107.	सूरजमुखी संकर	पी एस एच 1962	पंजाब
108.	सूरजमुखी संकर	आर एस एफ एच 1887	कर्नाटक
109.	अलसी का बीज	जे एल एस - 79	मध्य प्रदेश
110.	अलसी का बीज	अर्पिता	ओडिशा
111.	अलसी का बीज	पी के वी-एन एल-260 (एन एल-260)	महाराष्ट्र
112.	अलसी का बीज	दिव्या (बी ए यू-06-03)	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
113.	नाईजर	जे एन एस-30	मध्य प्रदेश
114.	नाईजर	आई जी पी एन-8004 (फूले बाईतराना)	महाराष्ट्र
115.	रेंडी संकर	एच सी एच 6	कर्नाटक
116.	सोयाबीन	बी एल सोया 77(बी एल एस 77)	उत्तराखंड
117.	सोयाबीन	बी एल भात 201(बी एल बी 201)	उत्तराखंड
118.	जई	जे एच ओ-2009-1 (बुंदेल जै-2009-1)	उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात
119.	चावल बीन	बिधान राईस बीन-3 (के आर बी-19)	झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आसाम, मणिपुर और केरल
120.	चारा जई	यू पी ओ-06-1 (पंत चारा जई-3)	उत्तराखंड
121.	गिनी घास	धारवाड गिनी घास-1 (डी जी जी-1) (आर एस डी जी जी-1)	सम्पूर्ण भारत
122.	चारा	सी एस वी 21एफ	गुजरात
123.	मेस्टा	धारवाड मेस्टा-1	कर्नाटक
124.	बाजरा	फूले आदिशक्ति (डी एच वी एच 9071)	महाराष्ट्र
125.	बाजरा संकर	नेपियर बाजरा हाईब्रिड पी बी एन 346	पंजाब
126.	क्षेत्र मटर	आई पी एफ डी 6-3	उत्तर प्रदेश
127.	क्षेत्र मटर	आर एफ पी 4 (केश्वानंद मटर 1)	राजस्थान
128.	मसूर	आर एल जी-5 (केश्वानंद मसूर-1)	राजस्थान
129.	मसूर	आई पी एल 526	उत्तर प्रदेश
130.	गन्ना	गुजरात गन्ना-4 (सी ओ एन 03131)	गुजरात
131.	गन्ना	गुजरात गन्ना-5 (सी ओ एन 05071)	गुजरात
132.	गन्ना	गुजरात गन्ना-6 (सी ओ एन 05072)	गुजरात
133.	गन्ना	गुजरात गन्ना-7 (सी ओ एन 04131)	गुजरात
134.	गन्ना	गुजरात गन्ना-8 (सी ओ एन 07072)	गुजरात
135.	गन्ना	सी ओ पी बी91 (सी ओ पी बी09181)	पंजाब

[फा.सं. 3-51/2016-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd, November, 2016

S.O.3540(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, hereby declares that the said varieties of the seeds shall be the notified varieties to be sold for purposes of agriculture for the States mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

TABLE

S. No.	Crop	Variety	State
1.	Rice	HKR 48 (HKR 99-60)	Haryana
2.	Rice	Gujarat Anand Rice-3 (GAR-3)	Gujarat
3.	Rice	Chinsurah Nona-1 (IET 23403)(Gosaba-5) (IR551793B-11-3)	West Bengal
4.	Rice	Punjab Basmati 3	Punjab
5.	Rice	GNR-4	Gujarat
6.	Rice	Swarna Shreya	Chhattisgarh and Madhya Pradesh
7.	Rice	TM 07278	Bihar and Odisha
8.	Rice	Pusa Basmati 1637	Punjab, Haryana, Delhi, Jammu, Uttarakhand and Uttar Pradesh.
9.	Rice	Pusa Basmati 1728	Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakhand and Uttar Pradesh.
10.	Rice	PAC 8744	Chhattisgarh
11.	Rice	BS 158 (Arize Swift)	Madhya Pradesh
12.	Rice	Chhattisgarh Madhuraj Dhan-55	Chhattisgarh
13.	Rice	MTU 1121 (Sri Dhruthi)	Andhra Pradesh
14.	Rice	JR 767	Madhya Pradesh
15.	Rice	Rice CR1009Sub 1	Tamil Nadu
16.	Rice	TKM 13	Tamil Nadu
17.	Rice	VL 7620	Uttarakhand
18.	Rice	KPR-1 (IET-23077)	Karnataka
19.	Rice Hybrid	NK16520	Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha and Telangana
20.	Rice Hybrid	JKRH 3333	West Bengal, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh
21.	Paddy Hybrid	KPH 467	Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Maharashtra
22.	Paddy Hybrid	KPH 272	Telangana, Karnataka and Tamil Nadu
23.	Paddy	Bauna Kalanamak-101	Uttar Pradesh
24.	Wheat	DH 114 (Him Pratham)	Himachal Pradesh
25.	Wheat (<i>Triticum aestivum</i>)	VL 953 (VL Gehun 953)	Uttarakhand
26.	Wheat (<i>Triticum aestivum</i>)	UP 2784	Uttarakhand
27.	Bread wheat (<i>Triticum aestivum</i>)	PBW 660	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
28.	Bread wheat (<i>Triticum aestivum</i>)	PBW 677	Punjab
29.	Bread wheat (<i>Triticum aestivum</i>)	PBW 725	Punjab
30.	Bread Wheat (<i>Triticum aestivum</i>)	PDKV Sardar (AKAW-4210-6)	Maharashtra
31.	Maize	Gujarat Anand Yellow Maize Hybrid-1 (GAYMH-1)(1H-0461/GYH-0461)	Gujarat
32.	Maize	Hybrid HTMH 5106	Telangana
33.	Maize	RJ-2020	Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh.
34.	Maize	RMH-4620 (PRO-385)	Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
35.	Maize	Central Maize VL Sweet Corn 1 (FSCH18)	Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, NE Hills, Delhi, Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

36.	Maize	SHIATS Makka-3 (SHIATS MS-3) (IVT DMR 117)	Uttar Pradesh
37.	Maize hybrid	PMH 10	Punjab
38.	Sorghum	GJ-42 (SR-666-1)	Gujarat
39.	Sorghum	SPH 1641	Maharashtra
40.	Sorghum	Raj Vijay Jowar 1862 (RVJ 1862)	Madhya Pradesh
41.	Sorghum	RVICSH 28	Madhya Pradesh
42.	Barley	VLB 94	Uttarakhand
43.	Barley	RD2849	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan (Except Kota and Udaipur Divisions), West U.P. (Except Jhansi Division), Jammu and Kathua Districts of J&K, Paonta Valley and Una District of HP and Tarai Region of Uttarakhand.
44.	Sesame	Gujarat Junagadh Til-5 (GJT 5)	Gujarat
45.	Sesame	LT 8 (Punjab Til No. 2)	Punjab
46.	Red gram	Ujwala (PRG 176)	Telangana
47.	Red gram	Mannemkonda Kandi (ICPH 2740)	Telangana
48.	Black gram	LBG 787 (Tulasi)	Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana and Andaman and Nicobar.
49.	Horse gram	Phule Sakas (SHG 0628-4)	Maharashtra
50.	Urd bean	PDKV Blackgold (AKU 10-1)	Maharashtra
51.	Moong bean	GBM-1	Gujarat
52.	Moong bean	IPM 410-3 (Shikha)	Rajasthan, Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat.
53.	Moong bean	IPM205-7 (Virat)	Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Gujarat.
54.	Moong bean	SML-1115	Tripura, Manipur and Mizoram
55.	Moong bean	MSJ 118 (Keshwanand Mung 2)	Rajasthan
56.	Moong bean	ML 2056	Punjab
57.	Moong bean	RMG 975 (Keshwanand Mung 1)	Rajasthan
58.	Cowpea	MFC-09-1	Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Puducherry.
59.	Pigeon pea	GT-102	Gujarat
60.	Pigeonpea	BRG 5	Karnataka
61.	Chickpea	BDNGK 798	Maharashtra
62.	Chickpea	Gujarat Junagadh Gram 6 (GJG 6)	Gujarat
63.	Chickpea	JG 36 (Jawahar Gram 36)	Madhya Pradesh
64.	Chickpea	GBM 2	Karnataka
65.	Cotton	G.Cot.20(GSHV 97/59)	Gujarat
66.	Cotton	GN.Cot.25	Gujarat
67.	Cotton	DHB 915	Karnataka
68.	Cotton	GN.Cot.22	Gujarat
69.	Cotton	SVPR 5 (TSH-0250)	Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu
70.	Cotton	Cotton Hybrid SVPR-1(TSHH-0629)	Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu.
71.	Cotton	JLA-505	Maharashtra, Madhya Pradesh and Gujarat.

72.	Cotton (<i>Gossypium Hirsutum</i>)	Raichur Shakthi-455 (RAHH-455)	Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh
73.	American Cotton	F2228	Punjab
74.	American Cotton	F2383	Punjab
75.	Finger Millet	GNN-6	Gujarat
76.	Finger Millet	GN-5	Gujarat
77.	Finger millet	VL Mandua 348	Uttarakhand
78.	Little Millet	GV-2	Gujarat
79.	Little Millet	Phule Ekadashi (KOPLM 83)	Maharashtra
80.	Little millet	Jawahar Kutki 4 (JK 4)	Madhya Pradesh
81.	Pearl Millet	MP 535 (Pusa Composite 701)	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Delhi.
82.	Pearl Millet	KBH 3940 (MH 1984)	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Delhi.
83.	Pearl Millet	Nandi-75 (MSH 287) (NMH 82)	Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu and Uttar Pradesh
84.	Pearl Millet	JKBH 1008 (MH 1828)	Rajasthan, Gujarat and Haryana.
85.	Pearl Millet	86M13 (MSH 276)	Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu.
86.	Pearl Millet Hybrid	MH 1928 (XMT1497)	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Delhi, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh.
87.	Pearl Millet Hybrid	86M82 (MH 1888)	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab and New Delhi.
88.	Pearl Millet Hybrid	JKBH 1100 (MH 1810)	Uttar Pradesh
89.	Pearl Millet Hybrid	JKBH 1105 (MSH 254)	Uttar Pradesh
90.	Pearl Millet Hybrid	BIO 8145 (MH 1970)	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Punjab and Delhi.
91.	Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	RLC 2 (IC 511615)	Punjab
92.	Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	PBR 378	Punjab
93.	Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	JK Samridhi Gold (JKMS-2)	Uttar Pradesh
94.	Mustard (<i>Brassica campestris</i>)	JK Pukhraj (JKYS-2)	Uttar Pradesh
95.	Indian Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	Raj Vijay Mustard 1	Madhya Pradesh
96.	Indian Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	Gujarat Dantiwada Mustard-5 (GDM 5) (SKM 518)	Punjab, Haryana, Jammu, Rajasthan and Delhi.
97.	Indian Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	Bayer Mustard 5450	Uttar Pradesh
98.	Indian Mustard (<i>Brassica juncea</i>)	RLC 3	Punjab
99.	Toria (<i>Brassica rapa</i>)	TL 17	Punjab
100.	African sarson (<i>Brassica carinata</i>)	BJC 1 (PC 6)	Punjab
101.	Groundnut	Central Groundnut Raj Mungfali 3 (RG 559-3)	Rajasthan, Uttar Pradesh and Punjab
102.	Groundnut	Phule Warna (KDG 128)	Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu
103.	Groundnut	Phule Morna (KDG 123)	Gujarat and Rajasthan
104.	Groundnut	KCG 6	Karnataka
105.	Groundnut	GKVK 5	Karnataka

106.	Sunflower	Phule Bhaskar (SS-0808)	Maharashtra
107.	Sunflower hybrid	PSH 1962	Punjab
108.	Sunflower hybrid	RSFH 1887	Karnataka
109.	Linseed	JLS-79	Madhya Pradesh
110.	Linseed	ARPITA	Odisha
111.	Linseed	PKV-NL-260 (NL-260)	Maharashtra
112.	Linseed	Divya (BAU-06-03)	Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
113.	Niger	JNS-30	Madhya Pradesh
114.	Niger	IGPN-8004 (Phule Vaitarana)	Maharashtra
115.	Castor hybrid	HCH 6	Karnataka
116.	Soybean	VL Soya 77 (VLS 77)	Uttarakhand
117.	Soybean	VL Bhat 201 (VLB 201)	Uttarakhand
118.	Oat	JHO-2009-1 (Bundel Jai-2009-1)	Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Gujarat.
119.	Rice bean	Bidhan Rice bean-3 (KRB-19)	Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, Manipur and Kerala.
120.	Forage Oat	UPO-06-1 (Pant forage Oat-3)	Uttarakhand
121.	Guinea grass	Dharwad Guinea Grass-1 (DGG-1) (RSDGG-1)	All India
122.	Fodder Sorghum	CSV 21F	Gujarat
123.	Mesta	DharwadMesta-1	Karnataka
124.	Bajra	Phule Aadishakti (DHBH 9071)	Maharashtra
125.	Bajra hybrid	Napier Bajra Hybrid PBN 346	Punjab
126.	Fieldpea	IPFD 6-3	Uttar Pradesh
127.	Fieldpea	RFP 4 (Keshwanand Matar 1)	Rajasthan
128.	Lentil	RLG-5 (Keshwanand Massor-1)	Rajasthan
129.	Lentil	IPL 526	Uttar Pradesh
130.	Sugar cane	Gujarat Sugarcane-4 (CoN 03131)	Gujarat
131.	Sugar cane	Gujarat Sugarcane-5 (CoN 05071)	Gujarat
132.	Sugar cane	Gujarat Sugarcane-6 (CoN 05072)	Gujarat
133.	Sugar cane	Gujarat Sugarcane-7 (CoN 04131)	Gujarat
134.	Sugar cane	Gujarat Sugarcane-8 (CoN 07072)	Gujarat
135.	Sugarcane	CoPb91 (CoPb09181)	Punjab

[F. No. 3-51/2016-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.